

दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू

सत्र:(2021-2022)

Foundation Worksheet

कक्षा:तीसरी

विषय:हिंदी

उपविषय- अपठित गद्यांश, अनुच्छेद लेखन, ध्वनि और वर्ण, संज्ञा

प्र.१ निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए पूछे गए

प्रश्नों के उत्तर दीजिए -

एक कौआ था । एक दिन उसे रोटी का टुकड़ा मिला। वह उसे लेकर एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। तभी वहाँ एक लोमड़ी आ गई ।उसने कौए की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा।जिसे देखकर लोमड़ी के मुँह में पानी आ गया। वह पेड़ के नीचे आई और कौए से बोली, “कौए भाई आप तो बहुत मीठा गाते हो ,अपनी मीठी और मधुर आवाज़ में एक गाना सुना दो ना।”अपनी तारीफ़ सुनकर कौआ खुश हो गया ।उसने जैसे ही गाने के लिए मुँह खोला, वैसे ही रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया ।लोमड़ी ने जल्दी से रोटी का टुकड़ा उठाया और वहाँ से भाग गई। बेचारा कौआ काँव-काँव करता ही रह गया।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए-

क) कौआ रोटी का टुकड़ा लेकर कहाँ बैठ गया?

ख) लोमड़ी पेड़ के नीचे आकर कौए से क्या बोली?

निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

क) रोटी का टुकड़ा देखकर _____ के मुँह में पानी आ गया।

ख) लोमड़ी पेड़ के नीचे आकर कौए से बोली कि आप तो बहुत

_____ गाते हो।

निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ को लिखिए -

क) मधुर - मीठा , कड़वा , नमकीन

ख) प्रशंसा - तारीफ , डाँटना , निंदा

निम्नलिखित वाक्यों में सही/गलत का निशान लगाइए-

क) अपनी तारीफ सुनकर कौआ खुश हो गया। ()

ख) लोमड़ी ने जल्दी से रोटी का टुकड़ा उठाया और वहाँ से भाग गई। ()

सही विकल्प चुनकर लिखिए-

क) कौआ रोटी का टुकड़ा लेकर कहाँ बैठ गया?

१) पेड़ पर २) छत पर ३) मेज़ पर ४) सड़क पर

ख) कौन काँव-काँव करता रह गया ?

१) कौआ २) लोमड़ी ३) तोता ४) कोयल

प्र.२) 'पेड़ हमारे मित्र' विषय पर सहायक सूची की सहायता से एक अनुच्छेद लिखिए। (शब्द सीमा 60-70)

सहायक सूची- मित्र, पेड़ों की रक्षा, ताज़ी हवा, दवाइयाँ, लकड़ी का सामान, फल, सब्जियाँ, छाया, शुद्ध वातावरण, बीमारियों से छुटकारा, पेड़ों को न काटना, रक्षा करना, पेड़ लगाना

प्र.३) निम्न दिए गए वर्णों में से स्वर और व्यंजन अलग करके लिखिए-

स्वर		व्यंजन
-----		-----
-----		-----
-----		-----
-----		-----
-----		-----
-----		-----

प्र.४) निम्नलिखित स्वरों की मात्रा-चिह्नों का प्रयोग करते हुए दो-दो शब्द लिखिए-

क) ऋ - _____ , _____

ख) इ - _____ , _____

ग) ऐ - _____ , _____

घ) औ - _____ , _____

ङ) आ - _____ , _____

च) ऊ - _____ , _____

प्र.५) निम्न दिए गए रंगीन वर्णों के साथ सही मात्रा का प्रयोग करके शब्द

पूरे कीजिए।

क) खइक

ख) बतल

ग) कबतर

घ) नकरानन

ङ) कतब

च) पस्तक

प्र.६) निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके लिखिए -

क) मेरे पिताजी बाज़ार गए हैं ।

ख) मैं कल स्कूल जाऊँगा।

ग) माँ ने बाज़ार से खिलौना खरीदा ।

घ) गाय घास खा रही है ।

ङ) मेरे मामाजी पंजाब में रहते हैं ।

च) बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं ।

प्र.७) निम्नलिखित वाक्यों में उचित संज्ञा शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए-

- क) _____ नाच रही है ।
ख) _____ जंगल का राजा है ।
ग) बच्चा _____ से खेल रहा है ।
घ) मेज़ पर _____ रखी है ।
ङ) माँ ने आज लाल रंग की _____ पहनी है ।
च) _____ के पंख बहुत सुंदर होते हैं ।

प्र.८) कोष्ठक में से उचित संज्ञा शब्द छाँटकर रिक्त स्थान भरिए-

- क) _____ आकाश में उड़ रही है। (चिड़िया/ जहाज़)
ख) _____ शक्तिशाली जानवर है।(तोता / हाथी)
ग) _____ मैदान में खेल रहे हैं। (बच्चे/ लड़की)
घ) रात में _____ निकलता है। (सूरज / चाँद)
ङ) हमारा राष्ट्रीय फूल _____ है। (कमल / गुलाब)
च) _____ फलों का राजा है। (गोभी / आम)